

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, लेह (लद्दाख) में “प्रकृति : छात्र-वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम” का आयोजन

“प्रकृति : छात्र-वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम” के अंतर्गत हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ने केन्द्रीय विद्यालय, लेह (लद्दाख) के 10वीं, 10+1 और 10+2 के 63 विद्यार्थियों के लिए वानिकी तथा पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 07 सितम्बर 2019 को दोपहर बाद केन्द्रीय विद्यालय, लेह (लद्दाख) में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अतिरिक्त 2 संकाय सदस्य भी उपस्थित



रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री सत्य प्रकाश नेगी, भा०व०से०, अरण्यपाल, प्रभाग प्रमुख, विस्तार, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ने केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों व संकाय सदस्यों का अभिनंदन तथा स्वागत करने के बाद “प्रकृति : छात्र-वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम” के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत परिषद् के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों को वानिकी एवं पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से “प्रकृति : छात्र-वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम” प्रारंभ किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन एक स्वायत्त संस्था है तथा वानिकी अनुसंधान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को

हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्थान पश्चिमी हिमालय राज्यों - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में वानिकी एवं वानिकी अनुसन्धान तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है व संस्थान की गतिविधियों के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तार से अवगत कराया ।

डॉ. वनीत जिष्ट, वैज्ञानिक-डी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को “जल - एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन तथा “जैव-विविधता” विषयों पर दो प्रस्तुतियां दी । उन्होंने विद्यार्थियों को शीत मरुस्थल में पायी जाने वाली पौधों की प्रजातियों तथा उनके उपयोग के बारे में विस्तार-पूर्वक अवगत कराया तथा विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संस्थान के वैज्ञानिक तथा अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया ।



तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संकाय सदस्यों के साथ विद्यालय के प्रांगण में जुनिपर पोधरोपण किया गया ।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पुनीत ने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला से आए अधिकारी, वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों (श्री सत्य प्रकाश नेगी, डॉ. वनीत जिष्ट, श्री पीताम्बर सिंह नेगी, श्री मंजीत कुमार, श्री अजय कुमार, श्री लोकेश) का धन्यवाद करते हुये कहा कि उनके द्वारा दी गयी जानकारी से छात्र निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे तथा आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी संस्थान द्वारा पर्यावरण एवं वानिकी से संबन्धित विभिन्न विषयों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर करते रहेंगे। उन्होनें इस तरह के आयोजन करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून, के महानिदेशक तथा हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला के निदेशक का आभार व्यक्त किया ।

कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ



